


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

समाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 1975/असाढ़ 27, 1897

No. 203]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 1975/ASADHA 27, 1897

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July 1975

G.S.R. 418(E).—In pursuance of clause 3 of the Fertiliser (Control) Order, 1957 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture) No. G.S.R. 254(E) dated the 1st June, 1974 and No. 684(E) dated the 9th December, 1974, the Central Government hereby fixes, with immediate effect, the price specified in column (2) of the Schedule annexed hereto as the maximum price per tonne, at which the fertiliser specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule shall be sold to the tea, coffee or rubber plantations or to the cultivators.

THE SCHEDULE

Name of Fertiliser	Maximum price per tonne (net)
(1)	(2)
	(in Rupees)
1. Ammonium Sulphate :	
(i) when packed in 100 Kg. bags.	925
(ii) when packed in 50 Kg. bags	935

(1)	(2)
2. Urea (46% Nitrogen)	1850
3. Urea coated (45% Nitrogen)	1810
4. Calcium Ammonium Nitrate (25% Nitrogen)	1015
5. Calcium Ammonium Nitrate (26% Nitrogen)	1060
6. Calcium Ammonium Nitrate (27% Nitrogen)	1100
7. Calcium Ammonium Nitrate (28% Nitrogen)	1140

Explanation.—The maximum price specified above shall be exclusive of the Central Sales Tax, Local sales tax, or other local taxes wherever levied, whether at the retail sales point or at any intermediate stage.

NOTE.—When sales of any fertiliser are made in quantities not exceeding 5 kilograms at a time, the dealer may charge one paise per kilogram in addition to the proportionate maximum price specified above.

[No. 10-25/75-STU]

V. RANGANATHAN, Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1975

सां० का० नि० 418(अ).—उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के खण्ड 3 के अनुसरण में और भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या सां० का० नि० 254(ई) दिनांक 1 जून, 1974 तथा संख्या 684 (ई) दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तुरन्त प्रभावी रूप से, इस से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कीमत को प्रति टन अधिकतम फुटकर कीमत, जिस पर उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उर्वरक, चाय, काफी या रबड़ बागानों या खेतीहरों को विक्रय किया जा सकेगा, नियत करता है।

अनुसूची

उर्वरक का नाम	प्रति टन अधिकतम कीमत (निबल)
(1)	(2)
	रुपये
1. अमोनियम सल्फेट :—	
(1) जब 100 किलोग्राम के थैलों में भरी हो	925
(2) जब 50 किलोग्राम के थैलों में भरी हो	935

(1)	(2)
2. यूरिया (46 प्रतिशत नाईट्रोजन)	1850
3. यूरिया (लेपित) (45 प्रतिशत नाईट्रोजन)	1810
4. कैल्सियम अमोनियम नाईट्रेट (25 प्रतिशत नाईट्रोजन)	1015
5. कैल्सियम अमोनियम नाईट्रेट (26 प्रतिशत नाईट्रोजन)	1060
6. कैल्सियम अमोनियम नाईट्रेट (27 प्रतिशत नाईट्रोजन)	1100
7. कैल्सियम अमोनियम नाईट्रेट (28 प्रतिशत नाईट्रोजन)	1140

स्पष्टीकरण.—उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत में केन्द्रीय विक्रय कर, स्थानीय विक्रय कर या अन्य स्थानीय कर, भले ही किसी फुटकर विक्रय स्थल या अन्य किसी मध्यवर्ती स्थिति में जहां कहीं भी उद्ग्रहणीय थे, सम्मिलित नहीं होगा ।

टिप्पण.—पांच किलोग्राम से अधिक मात्रा में किसी एक समय के किसी उर्वरक के विक्रय किये जाने की स्थिति में व्यवहारी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के अनुपात में एक पैसा प्रति किलोग्राम अधिक ले सकेगा ।

[सं० 10-25/75- एस० टी० यू०]

बी० रंगानाथन, उपसचिव ।

